



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21]  
No. 21]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 18, 1984/पौष 28, 1905  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 18, 1984/PAUSA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1984

सां०कां०वि० 40 (अ):—केन्द्रीय सरकार विस्फोटक नियम, 1983 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के विस्फोटक विभाग की अधिसूचना सं० अ 2 (7), तारीख 11 जुलाई 1969 को अधिकांश करते हुए मुख्य विस्फोटक निर्देशक की सिफारिश पर ऐसे विस्फोटकों को, जो निम्नलिखित सूची में प्रकाशित किए जाने हैं, आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, कच्चा, उपयोग या बिखर के लिए प्राधिकृत विस्फोटक घोषित करती है।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रभु होती है।

ए० पी० अद्वज, संपन्न सचिव

प्राधिकृत विस्फोटकों की सूची

31-3-1983 तक

श्रेणी 1—आयत

श्रेणी 2—नाइट्रेट मिश्रण

अप्रोपियम नाइट्रेट हंधन लेव मिश्रण (ई०ले०मि०) परम्पू यह इतना संबेदनशील नहीं होता चाहिए कि उसे सं० 6 विस्फोट प्रेरक द्वारा प्रारम्भ किया जा सके।

एक्सेलान

भारतबेस

भारतबलान्ट

भारतपराईम

भारतटी

भारतकोलक

कोलेक्स-1—विनिर्दिष्ट स्थानों पर 31-12-83 तक परीक्षण विनिर्माण और फील्ड परीक्षण करने के लिए।

कोलेक्स-5—विनिर्दिष्ट स्थानों पर 31-3-83 तक परीक्षण विनिर्माण और फील्ड परीक्षण करने के लिए।

जायनेक्स-1

जायनेक्स-2

जायनेक्स-सी

जायनेक्स-3—विनिर्दिष्ट स्थानों पर 31-12-83 तक परीक्षण विनिर्माण और फील्ड परीक्षण करने के लिए।

ई०एम०-1 सीरिज विनिर्दिष्ट स्थानों पर 31-10-83 तक परीक्षण विनिर्माण और फील्ड परीक्षण करने के लिए।

एनजेल

फामिग्लिस्ट

फामिग्लिस्ट

फामिग्लिस्ट

कामजिल  
जोएन-1

नोटेशन—विनिर्दिष्ट स्थानों पर 31-3-83 तक परीक्षण विनिर्माण और फील्ड परीक्षण करने के लिए।

जोएन-एलडी } विनिर्दिष्ट स्थानों पर 31-3-83 तक परीक्षण विनिर्माण  
जोएन-एसडी } और फील्ड परीक्षण करने के लिए।

गोडाइन  
इंडोकोल-1  
इंडोकोल-2 (एच० डी०)  
इंडोकोल-3  
इंडोकोल-3 (एच० डी०)

इंडोकोल-सी 3--सी० एम० ब्रा० एस० प्रभाव में परीक्षण करने के लिए।

इंडोकोल-210  
इंडोकोल-230  
इंडोकोल-614  
इंडोकोल-634  
इंडोकोल-674

इंडोकोल-704 } (पम्प केबल फॉर्म बिस्कोटक) 30-4-1984 तक  
इंडोकोल-724 } अभियोग विनिर्दिष्ट पम्प ट्रक के जंवर तथा लोड  
इंडोकोल-734 } अभियोग मोर्चे विनिर्दिष्ट बोरडिंग में करने के लिए।  
इंडोकोल-774 }

इंडोमाइट-60

इंडोमिकस-135

इंडोमाइन

केलवेक्स-100

केलवेक्स-200

केलवेक्स-500

केलवेक्स-700 तथा

केलवेक्स-800

केलवेक्स 310

केलवेक्स-80

केलवेक्स-210

केलवेक्स 220

केलवेक्स 600

केलवेक्स 650 तथा

केलवेक्स-सी

केलवेक्स ऐक्सट्रा

केलवान ऐक्सट्रा

मेरिलेक्स-जी 1

मेरिलेक्स-जी 2

मेरिलेक्स-जी 3

मेरिलेक्स-जी 5

मोनोबाइन

मोनोएक्स—विनिर्दिष्ट स्थानों पर 31-3-1983 तक फील्ड परीक्षण करने के लिए।

नेमोनाइट

नोबेलाइट

पीई आर०ए० एफ०—विनिर्दिष्ट स्थानों पर 31-3-83 तक परीक्षण विनिर्माण और फील्ड परीक्षण के लिए।

पीई-51

पीई-आई ए० एम०

तथा

पीई-3 एफ

} विनिर्दिष्ट स्थानों पर 31-3-1983 तक परीक्षण  
विनिर्माण और फील्ड परीक्षण के लिए।

पेटाडाइन

पमिडाइन

पमिपी-1

पमिपी-3

पावरबक्स

पावरबक्स-1

पावरबक्स-2

पावरबक्स-3

पावरबक्स-2

पावरबक्स

प्रीमोअर एल० डी० 1

प्रीमोअर एल० डी० 2

पुलवेक्स—विनिर्दिष्ट स्थानों पर 31-3-1983 तक परीक्षण करने के लिए।

सेफ्टारिट

सॉल्वेज पाक—विनिर्दिष्ट स्थानों पर 31-3-1983 तक फील्ड परीक्षण करने के लिए।

सुपरबाइन

सुपरपी

सुपरजेल

टुएम्पाइट

टीबेक्स-100 तथा

टीबेक्स-200

जोटाडाइन—विनिर्दिष्ट स्थानों पर 31-3-83 तक परीक्षण विनिर्माण और फील्ड परीक्षण के लिए।

बर्ग 3—नायट्रो पीपिक

प्रमाण 1

नजीब "जी"

अल्फोनेक्स

अल्फाएक

अमोनियम जेलेटाइन डायनामाइट—81—प्रतिष्ठान नायट्रो गिलीसरीन (कोरिया में बनाए गये)

बेक्स्टाइट

बेक्सेक्स-जी 1

ब्लैस्टींग जेलेटाइन

कार्बाइट

कार्बाइट ए

कार्बाइट ए० एन०

कार्बाइट सी० डी०

कार्बाइट एम० डी०

कार्बाइट डब्ल्यू

कार्बाइट डब्ल्यू० एम०

डायनामाइट (1)—बेक्सेक्स द्वारा निर्मित

डायनामाइट, डायनामाइट, डायनामाइट, फोस्फोरस द्वारा निर्मित जेबेक्स-बी०ए० के द्वारा निर्मित

जेलेटाइन

जेलेटाइन डायनामाइट

जेलेनाइट

जीओफैक्स  
गोमा 2ई-सी०  
गोमाशा जेनेटाइन 40 प्रतिशत  
गोमाशा जेनेटाइन 50 प्रतिशत  
हेक्टाग्राइट  
हाईड्रोबेल  
समुद्रत जेलिसटाइट  
नायट्रोनेक्स-80 (पोलैड द्वारा निर्मित)  
नोबल स्वामसो शाटगन पाउडर  
नोबल पेरामेलस पाउडर  
नोबल रिमफायर पाउडर  
ओपनकास्ट जेनेटाइन  
परमीजेक्स  
प्लास्टर जेनेटाइन  
पोलर एजेक्स  
पोलर एमन जेनेटाइन डाइनामाइट  
पोलर एमन जेनेटाइन  
पोलर स्टास्टिज जेनेटाइन  
पोलर बाईकिंग  
पोलर स्पेशल जेनेटाइन  
पोलर बाईकिंग  
पोलर स्पेशल जेनेटाइन  
पॉक्सेस 80 प्रतिशत  
प्रबंड  
प्रचार  
प्रगल्क  
प्रकाश  
सीस्मेक्स  
सीस्मेक्स जेनेटाइन 90 प्रतिशत  
सीस्मेक्स जेनेटाइन 80 प्रतिशत  
सोस्मोपाक  
सोलिनेक्स  
सोनिमेक्स  
स्लेक्स जेनेटाइन  
पनड्यू अक्स्फोटक जेनेटाइन  
यूनिफरेक्स  
यूनिजेक्स  
यूनिप्रक "जी"  
यूनिसेक्स  
यूनिसेक्स "जी"  
बायकिंग "जी"  
सैल स्टास्ट जेनेटाइन

### बर्ग 3—गड्डो यौगिक

#### प्रभाग 2

एम्बोलास  
इन्वामिक्स-3 ए  
इन्वामिक्स-बी  
क्साजेक्स  
साइक्लोडाइमेथेसोन-डाइनामाइट (आर० डी० एक्स०, साइक्लो-  
नाइट, हेक्साजी)  
ई० सी० स्पोर्टिंग पाउडर  
गनकाउन  
नायट्रो स्टास्ट  
नायट्रो गोअलीडाइन  
नोबल रिम नीओनाइट

पक्क-1  
पेंटा-गुनिथिटल-टेडानाइट्रेट (पी० ई० टी० एन०, वेंचराइट)  
पेंटोनाइट ब्रुस्टर  
पिकरिक अम्ल (डाइनामाइटो फिनल)  
पिकरिक पाउडर  
पेनोस्टिक विस्फोटक  
प्राइमेक्स  
बार० डी० एक्स०—टी० एन० टी०  
सीस्मेक्स प्राइमर  
बीट विस्फोटक  
मुपरमेक्स  
ट्रेडानाइट्रोमैथनामिनल (सी० ई० टैट्रिल)  
टोनाइट या काउन पाउडर नं० 1  
टोनाइट या काउन पाउडर नं० 2  
टोनाइट नं० 3  
ट्राई-नाईट्रो-रिसासीनाल (स्टिफनिक अम्ल)  
ट्राई-नाइट्रो-टोलिन (टी० एन० टी०, ट्रीटिस)

### बर्ग 4—बलोरेट विस्फुल

#### प्रभाग 2

गुण्य  
गुण्य

### बर्ग 5—कुलमीनेट

#### प्रभाग 1

पारा कुलमीनेट

#### प्रभाग 2

मेड एनाइट  
मेड स्टफनेट (मेड-ट्राई-नाइट्रो-रिसासीनेट)

### बर्ग 6—पीसाबाक

#### प्रभाग 1

इग्नाइटर कोर्ड के लिए विद्युत नाइट्र  
इग्नाइटर कोर्ड के संयोजक  
नोबल के सुरक्षा विद्युत पत्तीने  
सुरक्षा पत्तीने

#### प्रभाग 2

सुरक्षा कारतूसों से भिन्न छोटे आयुधों के लिए कारतूस

कार्डिफ विस्फोटक  
कार्डिफमेक्स विस्फोटक प्रेरक पत्तीने  
कार्डिफमेक्स विस्फोटक प्रेरक पत्तीने  
डी० कोर्ड I, डी० कोर्ड II, डी० कोर्ड III और डी० कोर्ड IV  
विस्फोटक प्रेरक पत्तीने  
विद्युत पत्तीने  
विद्युत विस्फोटक प्रेरकों के लिए पत्तीने शॉप  
पल्लिता इग्नाइटर  
जीओ कोर्ड  
जीओ श्रेय  
स्वतः पत्तीने  
माइनर पोर्टेफायर  
बहु पत्तीने इग्नाइटर कोर्ड  
नोबल शोफ्ड चार्ज

प्लास्टिक इन्ग्रेडिएंट कोड  
प्लास्टिक इन्ग्रेडिएंट विक  
निकल मैच  
सीफ-टी-बोट  
टैब्लेट्स पलीने सीफ-निकल विस्फोट प्रेरकों के लिए पलीने सीफ  
सुरक्षा विद्युत पलीने  
विस्फोटकों #1 बागने के लिए नलियां

### प्रभाग 3

"कैरिक" नाम- सीन/इव शार्ट जिले विस्फोट प्रेरक  
छोटे धातुओं के लिए कारतूस जो सुरक्षा कारतूस नहीं है  
कोल जिले विस्फोट प्रेरक

जिले विस्फोट प्रेरक रज  
विस्फोटक प्रेरक  
विस्फोटन रिले  
विस्फोटन रिले—पी०टी०एस  
विद्युत बूस्टर  
विद्युत विस्फोट प्रेरक  
विद्युत जिले विस्फोट प्रेरक  
विद्युत शार्ट जिले विस्फोट प्रेरक  
बर्षण नलियां  
टाईट्रोस्टार विद्युत विस्फोट प्रेरक  
भीषेन मिनीसेकंड जिले विस्फोट प्रेरक  
परकर्मण प्राश्म  
सीस्मैक विद्युत विस्फोट प्रेरक  
सुपर प्लेन विस्फोट प्रेरक (सं० 8 स्ट्रैंथ)  
सुपर विद्युत विस्फोट प्रेरक (सं० 8 स्ट्रैंथ)  
विस्फोटकों का फायर करने के लिए नलियां  
"वी" प्रकार के जिले विस्फोट प्रेरक (सं० 8 स्ट्रैंथ)

### बर्ग 7 आतिशबाजी

#### प्रभाग 1

#### आतिशबाजी संरचना

मुख्य

#### प्रभाग 2

\*हवाई जहाज जिसे बिबियास या फायरवर्क भी कहते हैं जिनमें बारूद या नाइट्रेट मिश्रण किसी धातु के बने केस में है जिसका व्यास 25 मिलीमीटर और लम्बाई 15 मिलीमीटर से अधिक नहीं है।

#### एग्ज्युमीनिशम टाच

टाय पिस्तौलों के लिए टोपियों या टैप के रूप में इमोर्स जिसमें ऐसी विस्फोटक संरचना के 1000 हैं जिसे मुख्य नियंत्रक ने अनुमोदित कर दिया है और जिसमें अनुपात प्रति एक हजार बाट की संरचना में 4.5 ग्राम से अधिक नहीं है।

नान-बान या क्रिसमस पटाखे जिसमें ऐसी संरचना का और ऐसी मात्रा में विस्फोटक है जिसे मुख्य नियंत्रक अनुमोदित करे।

\*बाइनीज पटाखे जिसका खोल कागज का है और जिसकी नाप लम्बाई में 75 मिलीमीटर और जमका व्यास 15 मिलीमीटर से अधिक नहीं है तथा जिसमें बारूद, नाइट्रेट मिश्रण या कोई ऐसी विस्फोटक संरचना है जिसे मुख्य नियंत्रक ने अनुमोदित कर दिया है। कौबरा एंज या कौह सरवेंट (सफेद)

\*रंगीन धूप केवल बाहर प्रयोग के लिए

\*पटाखे जिन्हें आम तौर से "एथम बम" कहा जाता है और जो बारूद, नाइट्रेट मिश्रण या किसी ऐसी विस्फोटक संरचना के हैं। जिसे मुख्य नियंत्रक ने अनुमोदित कर दिया है और जिनके ऊपर कागज लिपटा हुआ है और जिन्हें चारों ओर से धागे से बांध दिया गया है और इस सम्पूर्ण का भार 25 ग्राम से और इसकी लम्बाई 40 मिलीमीटर से और जिसका व्यास 20 मिलीमीटर से अधिक नहीं है।

\*पटाखे जिन्हें आम तौर से "पाम सीफ फेकर्स" या "बास्केट बम" कहते हैं और जिसमें बारूद, नाइट्रेट मिश्रण या कोई ऐसी विस्फोटक संरचना है जिसे मुख्य नियंत्रक ने अनुमोदित कर दिया है और जिन कजूर की पत्ती का कागज लपेटा गया है और उन्हें त्रिकोण की आकृति में तैयार किया गया है।

संकट संकेत राकेट

\*अनार या फुहारे

\*हैंड फ्लैयर

\*सांस

भेजिक सपेट (काला)

मैग्नेशियम टाच और पेंसिलें

सेलून जिसमें कोई विस्फोटक सम्मिश्रण होती है और जिसकी संरचना आकार और भार ऐसा होता है जिसे मुख्य नियंत्रक अनुमोदित करें।

\*राकेट जिसका आकार लम्बाई में 76 मिलीमीटर से अधिक नहीं है तथा जिसका व्यास 25.4 मिलीमीटर से अधिक नहीं है परन्तु यह तब जब कि वह धातु के किसी केस में नहीं है।

\*रोमन कैडिल

\*शील परन्तु शर्त यह है कि उन्हें ऐसे मजबूत खरज से फाड़ल किया जाए जो मूल के नीचे मजबूती से गाढ़ा गया है।

साफट संकेत संकेत

साफट प्रकाश संकेत

साफट ध्वनि संकेत

\*पटाखे (विद्युत पटाखों सहित) प्रत्येक में जिसमें एक ताला लगा है और जिनमें बेरियम नाइट्रेट, एल्युमीनियम पाउडर, मैग्नेशियम पाउडर, लोह भरण, डैक्टाइल और गोंद का मिश्रण भरा है। ऐसे प्रत्येक तार के लिए इस प्रकार की संरचना का कुल भार 22 ग्राम से अधिक नहीं होगा परन्तु यह तब जब कि ऐसे प्रत्येक पटाखे की संरचना इस प्रकार की जाए कि कोई भी गर्म अवशेष पटाखे के जलने के दौरान या उसके पश्चात् उससे अलग न हो। बारूद या नाइट्रेट मिश्रण से तैयार किया गया स्क्रिबिब बेरी सिगनल कारतूस।

\*विस्फोटकों की संरचना में कोई क्लोरेट नहीं मिला होगा।

#### प्रभाग 2

एस० ओ० एस, (ध्व आकसीजन विस्फोटक)

#### MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 1984

G.S.R. 40(E).—In exercise of the powers conferred by Rule 6 of the Explosives Rules, 1983 and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Explosives No. E.II(7), dated the 11th July, 1983, the Central Government hereby declares the explosives, on the recommendation of the Chief Controller of Explosives, as authorised explosives, for import, export, transport, manufacture, possession, use or sale, which are hereby published in the following list.

2. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

A.P. SARWAN, Jt. Secy.

**LIST OF AUTHORISED EXPLOSIVES AS ON 31-3-1983**  
**CLASS 1—GUNPOWDER**

**CLASS 2—NITRATE MIXTURE**

**AMONIUM NITRATE/FUEL OIL MIXTURE (ANFO)**  
provided the same is not so sensitive that it can be initiated by means of a No. 6 Detonators.

ACQUADINE  
BHARATBASE  
BHARATBLAST  
BHARAT PRIME  
BHARAT COLUMN  
BHARATTOE

**COLEX-1** for carrying out trial manufacture and field trials at the specified locations upto 31-12-83.

**COLEX-5** for carrying out trial manufacture and field trials at the specified locations upto 31-3-83

**DYNEX-1**  
**DYNEX-2**  
**DYNEX-C**  
**DYNEX-3** for carrying out trial manufacture and field trials at the specified locations upto 31-12-83.

**EM-1** Series for carrying out trial manufacture and field trials at the specified locations upto 31-10-83.

**ENERGEL**  
**FORMABLAST**  
**FORMABOOST**  
**FORMADYNE**  
**FORMAGEL**  
**GN-1**

**GAMADYNE** for carrying out trial manufacture and field trials at the specified locations upto 31-3-83.

**GEELEX-LD** }  
**GEELEX—SD** } for carrying out trial manufacture and field trials at the specified locations upto 31-3-83.

**GODYNE**  
**INDOCOAL-1**  
**INDOCOAL-2(HD)**  
**INDOCOAL-3**  
**INDOCOAL-3(HD)**

**INDOCOAL-P3**  
**INDOGEL-210**  
**INDOGEL-230**  
**INDOGEL-614**  
**INDOGEL-634**  
**INDOGEL-674** for test at C.M.R.S. Dhanbad.

**INDOGEL-704** }  
**INDOGEL-724** } (Pumpable slurry explosives) for  
**INDOGEL-734** } on site trial manufacture inside  
**INDOGEL-774** } a pump truck for carrying out  
**INDOMITE-60** } F.T. directly with specified Bore  
**NDOMIX-135** } hole upto 30-4-1984 .  
**IND OPRIME**

**KELVEX-100**  
**KELVEX-200**  
**KELVEX-500**  
**KELVEX-700 and**  
**KELVEX-800**  
**KELVEX-310**  
**KELVEX-90**  
**KELVEX-210**  
**KELVEX-220**  
**KELVEX-600**  
**KELVEX-650 and**  
**KELVEX-P**  
**KELVEX EXTRA**  
**KELVAN EXTRA**  
**MARINEX-G1**  
**MARINEX-G2**  
**MARINEX-G3**  
**MARINEX-G5**  
**MONODINE**

**MONOEX** for carrying out field trials at specified locations upto 31-3-1983.

**NAMONITE**  
**NOBELITE**  
**PE-IAE**

for carrying out trial manufacture and field trials, at specified locations upto 31-3-1983.

**PE-51,**  
**PE-1AS and PE-3L**

for carrying out trial manufacture and field trials at the specified locations upto 31-3-1983.

**PENTADYNE**  
**PERMADYNE**  
**PERMAFLO-1**  
**PERMAFLO-3**  
**POWEREX**  
**POWERFLO-1**  
**POWERFLO-2**  
**POWERFLO-3**  
**POWERGEL-2**  
**POWERITE**  
**POWERPLAST**  
**PREMIER LD-1**  
**PREMIER LD-2**

**PULVEREX** for carrying out field trials at specified locations upto 31-3-1983.

**SAFBLAST**  
**SALVAGE PAK**

for carrying out field trials at specified locations upto 31-12-1983.

**SUPERDYNE**  
**SUPERFLO**  
**SUPERGEL**  
**TOEBLAST**  
**TOVEX-100 and**  
**TOVEX-200**

**ZEETADYNE**

for carrying out trial manufacture and field trials at the specified locations up to 31-3-1983.

**CLASS 3—NITRO COMPOUND**

**DIVISION I**

**AJAX 'G'**  
**ALPHAGEX,**  
**ALPHAPRUF**

AMMONIUM GELATINE DYNAMITE—81% NITRO  
GLYCERENE

(Korean Make)

BALLISTITE  
BELEX-G1  
BLASTING GELATINE  
CORDITE  
CORDITE A  
CORDITE AN  
CORDITE CD  
CORDITE MD  
CORDITE W  
CORDITE WM  
DYNAMITE III Belgium Make  
DYNAMITTI, DYNAMITTIA, DYNAMIT Finland Make  
GELEMEX—B U.K. make  
GELATINE  
GELATINE DYNAMITE  
GELIGNITE  
GEOPHEX  
GOMA 2E-C  
GOMIA GELATINE 40%  
GOMIA GELATINE 50%  
HECTORITE  
HYDROBEL  
IMPROVED BALLISTITE  
NITRONEX-80 (Polish Make)  
NOBEL GLASGOW SHOTGUN POWDER  
NOBEL PARABELLUM POWDER  
NOBEL RIMFIRE POWDER  
OPENCAST GELIGNITE  
PERMIGEX  
PLASTER GELITINE  
POLAR AJAX  
POLAR AMMON GELATINE DYNAMITE  
POLAR AMMON GELIGNITE  
POLAR BLASTING GELATINE  
POLAR VIKING  
POLAR SPECIAL GELATINE  
POWEX 80%  
PRACHAND  
PRACHAR  
PRAGALPH &  
PRAKASH  
SEISMEX  
SEISMIC GELATINE 90%  
SEISMIC GELATINE 80%  
SEISMOPAK  
SOLIGEX  
SOLIMAX  
SPECIAL GELATINE  
SUBMARINE BLASTING GELATINE  
UNIFRAX  
UNIGEX  
UNIPRUF 'G'  
UNISAX  
UNISAX 'G'  
VIKING 'G'  
WELL-BLAST GELATINE

CLASS 3—NITRO COMPOUND  
DIVISION 2

AMMONAL  
BLAMIX-III A  
BLAMIX-B  
CLADIX

CYCLOTRIMETHYLENE-TRANITRAMINE (RDX, Cyclo-  
nite, Hexagone)

DI-NITRO-PHENOL  
E.C SPORTING POWDER  
GUNCOTTON  
NITRO-BLAST  
NITRO-GUANIDINE  
NOBEL RIFLE NEONITE  
NOBEL RIM NEONITE  
PEX-I  
PENTA-ERYTHRITOL-TETRANITRATE (PETN, Penthrite)  
PENTOLITE BOOSTER  
PICRIC ACID (Trinitro Phenol)  
PICRIC POWDER  
PLASTIC EXPLOSIVES  
PRIMEX  
RDX-TNT  
SEIMEX PRIMER  
SHEET EXPLOSIVES  
SUPERMEX  
TETRANITROMETHYLANILINE (C.E. Tetryl)  
TONITE OR COTTON POWDER NO. 1  
TONITE OR COTTON POWDER NO. 2  
TONITE NO. 3  
TRI-NITRO RESORCINOL (STYPHNIC ACID)  
TRI-NITRO-TOLUENE (TNT, TROTYL)

CLASS 4—CHLORATE MIXTURE  
DIVISION 2

NIL  
NIL

CLASS 5—FULMINE  
DIVISION 1

FULMINE OF MERCURY

DIVISION 2

LEAD AZIDE

LEAD STYPHNATE (LEAD TRI NITRO RESORCINATE)

CLASS 6—AMMUNITION

DIVISION 1

ELECTRIC LIGHTERS FOR IGNITER CORD  
IGNITER CORD CONNECTORS  
NOBEL'S SAFETY ELECTRIC FUZES  
SAFETY FUZE

DIVISION 2

CARTRIDGES FOR SMALL ARMS OTHER THAN  
SAFETY CARTRIDGES

CORDEAU BICKFORD  
CORDFLEX DETONATING FUSE  
CORDTEX DETONATING FUSE  
D. CORD I D-CORD II, D. CORD III and D. CORD IV  
DETONATING FUSE  
ELECTRIC FUSES  
FUSE HEADS FOR ELECTRIC DETONATORS  
FUSE IGNITERS  
GEOCORD  
GEOSHAPE  
INSTANTANEOUS FUSE  
MINERS' PORTFIRES

MULTI FUSE IGNITERS  
NOBEL SHAPED CHARGE  
PLASTIC IGNITER CORD  
PLASTIC IGNITER WICK  
QUICK MATCH  
SAF-T-DETS

TESTEX FUSE HEADS—FUSE HEADS FOR ELECTRIC  
DETONATORS AND SAFETY ELECTRIC FUSES

TUBES FOR FIRING EXPLOSIVES

#### DIVISION 3

"CARRIC" NON-INCENDIVE SHORT DELAY DETONA-  
TORS

CARTRIDGES FOR SMALL ARMS WHICH ARE NOT  
SAFETY CARTRIDGES

COAL DELAY DETONATORS  
CRIMPET

DELAY DETONATORS RELAYS  
DETONATORS

DETONATING RELAYS  
DETONATING RELAYS-PTX

ELECTRIC BOOSTERS

ELECTRIC DETONATORS

ELECTRIC RELAY DETONATORS

ELECTRIC SHORT DELAY DETONATORS

FRICTION TUBES

HYDROSTAR ELECTRIC DETONATORS

METHANE MILLISECOND DELAY DETONATORS

PERCUSSION PRIMERS

SEISMIC ELECTRIC DETONATORS

SUPER PLAIN DETONATORS (No. 8 strength)

SUPER ELECTRIC DETONATORS (No. 8 Strength)

TUBES FOR FIRING EXPLOSIVES

'V' TYPE DELAY DETONATORS (No. 8 Strength)

#### CLASS 7 FIREWORKS

##### DIVISION 1

##### FIREWORKS COMPOSITION

NIL

##### DIVISION 2

\*AEROPLANES also known as CHIDIAS OR FIRE-FLIES  
containing Gunpowder or nitrate mixture in a metal case not  
exceeding 25 mm in diameter and 15 mm in length.

##### ALUMINIUM TORCHES

Amorces in the form of caps or tapes for toy pistols consisting  
of dots of explosive composition approved by the Chief Con-  
troller and in proportion not exceeding 4.5 grams of composition  
to every 1000 dots.

NON-BON or CHRISTMAS CRACKERS containing an  
explosive of such composition and in such quantity as may be  
approved by the Chief Controller.

\*CHINESE CRACKERS having paper shells of size not ex-  
ceeding 75 mm. in length and 15 mm in diameter containing  
gunpowder nitrate mixture or an explosive composition ap-  
proved by the Chief Controller.

##### COBRA EGGS OR PHARAOH'S SERPENT (WHITE)

\*CRACKERS commonly known as 'Atom Bombs' made with  
gunpowder nitrate mixture or an explosive composition approved  
by the Chief Controller, wrapped up in a paper and tied round  
with string the whole not exceeding 25 grams in weight, 40 mm.  
in length and 20 mm. in diameter or diagonal.

\*CRACKERS commonly known as "Palm Leaf Crackers" or  
"Basket Bombs" containing gunpowder, nitrate mixture or an  
explosive composition approved by the Chief Controller and  
wrapped up in palm leaf or in paper into a triangular shape.

##### DISTRESS SIGNAL ROCKETS

##### \*FLOWER POTS OR FOUNTAINS

##### \*HAND FLARES

##### \*LANCES

##### MAGIC SERPENT (BLACK)

##### MAGNESIUM TORCHES AND PENCILS

MAROON containing an explosive composition and of such  
construction, size and weight as may be approved by the Chief  
Controller

\*ROCKET of size not exceeding 76 mm in length and 25.4 mm  
in diameter provided it is not a metal case.

##### \*ROMAN CANDLE

\*SHELLS provided they are fired from a substantial mortar  
firmly buried below the ground level.

##### SOCKET DISTRESS SIGNALS

##### SOCKET LIGHT SIGNALS

##### SOCKET SOUND SIGNALS

\*SPARKLERS (including Electric Sparklers) each consisting  
of a wire having affixed thereto a mixture of nitrate of barium,  
aluminium powder, magnesium powder, iron filings, dextrin  
and gum, the total weight of composition so fixed to each such  
wire not to exceed 22 grammes provided that each such Sparkler  
shall be so constructed as not to allow any hot residue to become  
detached either during, or after combustion.

SQUIBS made with gunpowder or nitrate mixture

##### VERY SIGNAL CARTRIDGES

\*The explosive composition shall not contain any chlorate.

#### CLASS 2

##### LOX (Liquid Oxygen Explosives)

